Rupee tumbles 44p to close at 73.47

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai, September 3

THE RUPEE SLUMPED 44 paise to close at 73.47 against the US dollar on Thursday as rise in demand for the American currency from oil importers weighed on the forex market sentiment. Besides, stronger greenback against its key rival currencies and subdued domestic equities exerted pressure on the domestic unit.

At the interbank forex market, the rupee opened on a weak note at 73.23, lost further ground during the session and finally settled for the day at 73.47 against the greenback, registering a fall of 44 paise over its last close.

During the session, the domestic unit witnessed an

PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi, September 3

ADITYA BIRLA IDEA Payments

Bank has ceased to be a bank-

ing company within the mean-

ing of the Banking Regulation

Act, the Reserve Bank of India

banking regulator had said

that Aditya Birla Idea Pay-

ments Bank was headed for liq-

uidation after the company's

application for voluntary

Birla Idea Payments Bank Lim-

ited'has ceased to be a banking

company within the meaning

Company for the quarter ended 30th June, 2020

results are made public on 11" September, 2020.

Place: New Delhi

Date: 03.09.2020

Date: 02.09.2020

which will be sent in due course of time.

with respect to Covid-19 pandemic

facility to all its Members similar to earlier practices.

Place: New Delhi

RC

isted at www.bseindia.com and www.nseindia.com

"We advise that the 'Aditya

In November last year, the

(RBI) said on Thursday.

winding up.

Intra-day, September 3 (Inverted scale) 73.20 73.21 73.25 73.30 73.48 73.35 73.45

intra-day high of 73.23 and a

Meanwhile, the dollar index, which gauges the greenback's strength against a basket of six currencies, rose 0.18% to 93.01.

"Rupee ended lower Thurs-

back amid oil importers dollar demand. A strong dollar index pushed dollar-rupee spot pair higher," Jateen Trivedi, senior research analyst (commodity and currency) at LKP Securities, said. The greenback rose against

day tracking a strong green

major peers after investors trimmed bets against the greenback and sold the euro on concerns that the European Central Bank was worried about its rise, he added.

Brent crude futures, the global oil benchmark, fell 1.06% to \$43.96 per barrel.

Traders said markets will be eyeing weekly US jobless claims data for further cues.

This was the second consecutive day of decline for the rupee, during which it depreciated by 60 paise.

to be a banking company, says RBI

The decision to shut operations by the Aditya Birla Idea Payments Bank was taken due to unanticipated developments in the business landscape which have made the economic model unviable, a regulatory filing by the

Aditya Birla Idea Payments Bank had received the banking licence from the RBI in April 2017 for carrying out the business of a payments bank and had also received an

RAIL VIKAS NIGAM LIMITED

(A Government of India Undertaking

For Rail Vikas Nigam Limited

For MBL Infrastructures Ltd.

Anubhav Maheshwari

Company Secretary

Company Secretary & Compliance Officer

Kalpana Dubey

Vodafone Idea had said in July

authorisation to carry on the business of prepaid payments instrument business. It had commenced business from February 22, 2018.

Bank was promoted by Grasim Industries and Vodafone Idea with 51% 49% shareholdings, respectively.

AXIS MUTUAL FUND on Thursday said it is targeting to collect up to ₹1,500 crore from a new offering which will help domestic investors take bets in global markets. The fund house launched

Axis Mutual

unveils global

fund, aims to

₹1,500 crore

PRESS TRUST OF INDIA

Mumbai, September 3

raise up to

Axis Global Alpha Equity Fund of Fund, which will invest in Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha. It can be noted that Indian indices are experiencing a rally

The fund will invest in Schroder International

Selection Fund Global

Equity Alpha

in a contracting economy, and there have been concerns about high valuation of Indian equities. Some asset managers have started dedicated offerings towards such a scheme already. The fund house is targeting to get ₹1,000-1,500 crore from up to 75,000 investors in the new fund offering, a senior offi-

Nearly all the Indian wealth is invested in the Indian markets, which account for only 3% of global market capitalisation, the company said. Schroder is the largest asset manager in Europe with over \$500 billion under management and also owns 25% in Axis AMC, accord-

Pink bollworm attack yet to cross economic threshold limit: CICR

NANDA KASABE

Pune, September 3

ALTHOUGH PINK BOLL-**WORM** (PBW) infestation has been reported in crops across the cotton growing states, it has not crossed the economic threshold limits (ETL), top officials at the Indian Council of Agricultural Research – Central Institute for Cotton Research (CICR), Nagpur, said. The ETL is the pest popula-

tion at which control measures need to be initiated to prevent economic loss. For PBW, it is breached if 8-10 moths are trapped per pheromone trap for three consecutive nights. The cotton acreage across the country this kharif season touched 124 lakh hectare, similar to the previous season due to good monsoons.

VN Waghmare, acting director, CICR, said a review meeting was held with eight cotton growing states to take stock of the crop situation and discuss the Integrated Resistance Management.

"PBW has appeared in some parts of Maharashtra in Nanded, Parbhani, Vidarbha and Khandesh and parts of Punjab and Telangana and even Gujarat to some extent. However, the extent of infestation has dropped since the last season and some 10-15% of the crop may be infested in areas where farmers ignored advisories and opted for early planting," he said.

Deepak Nagrale, principal



scientist of the research institute, said a disease similar to PBW, called Boll Rot, has also made an appearance in some parts of Yavatmal in Maharashtra and the spread of the disease is currently scattered. Boll Rot is a disease in which the cotton boll rots first and then the PBW develops inside the boll and eats the fibre inside.

Waghmare said the institute has collected samples from Haryana, Karnataka, Maharashtra and Gujarat for field studies. Manish Daga of CottonGuru, a cotton farm advisory service for farmers, had also identified Boll Rot in Maharashtra and Gujarat Daga said while the PBW

infestation has not yet crossed ETL levels, a clearer picture should emerge when rains stop. At present, farmers are not able to go to their fields because of water retention. Once they visit their fields, the extent of the damage to the crops will be known. While farmers in Gujarat opted to sow groundnuts to break the chain of PBW infestation, in Maharashtra, the practices are not uniform and no holistic approach has been followed, Daga said.

Reg. Office: 3rd Floor, Sharda Arcade, Pune Satara Road, Pune-411037, Maharashtra, India Tel: 91 20 24221460, Fax: 91 20 24221470; investor relations@hovsltd.com | www.hovsltd.com

NOTICE is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, September 11, 2020 to consider inter-alia, Un-audited and reviewed Standalone & Consolidated financial results of the Company for 3 months financial period (Q1) ended

The Notice is also available at Investor Relations section of the Company's website www.hovsitd.com and corporate announcement section of www.nseindia.com and www.bseindia.com

For HOV Services Limited Bhuvanesh Sharma

VP-Corporate Affairs & Company Secretary & Compliance Officer Date: September 3, 2020

INTERTEC TECHNOLOGIES LIMITED

Regd Office: No.28, Shankar Mutt Road, Bangalore - 560 004 CIN NO. U85110KA1989PLC010456

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations-2015, a meeting of Board of Directors of the Company will be held on 14th September 2020 at 04.30 P.M. at the Registered Office of the company at No. 28, Shankar Mutt Road, Bangalore – 560 004, to interalia consider, and approve(a) the Un-Audited Standalone and Consolidated Financial results of the Company for the Quarter ended on June 30, 2020, (b) to take on record, Auditors Limited Review Report thereon. This intimation is also available on Company's website at www.intertec1.com/investors noticeQ1-2020-21.pdf and on Stock Exchanges' website at www.msei.ir

Bangalore September 3, 2020

For Intertec Technologies Limited (T.S. RAVI CHANDAR) **Managing Director**

PG ELECTROPLAST LIMITED CIN: L32109DL2003PLC119416

Regd. Office: DTJ - 209, 2nd Floor, DLF Tower-B, Jasola, New Delhi-110025 Corporate Office: P-4/2 to 4/6, Site-B, UPSIDC Indl. Area, Surajpur, Greater Noida, U.P.- 201306 Tel No: +91-120-2569323 Fax No: +91-120-2569131

Email: investors@pgel.in Website: www.pgel.in 18TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO

Shareholders may note that the 18th Annual General Meeting (AGM) of the Company willbe held through Video Conference facility (VC) on Tuesday, September 29, 2020 at 11:00 a.m. in compliance with MCA circulars dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 and SEBI circular dated May 12, 2020 (collectively referred to as 'Circulars'), to transact the business that will be set forth in the Notice

n compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for FY 2019-20 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depositary participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registra and Share Transfer Agent KFin Technologies Private Limited (KFin) at einward.ris@kfintech.com. The Notice of the 18th AGM and Annual Report for FY 2019-20 will also be made available on the Company's website at www.pgel.in,

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses and mobile numbers will be provided in the Notice to the shareholders.

stock exchange websites - www.bseindia.com & www.nseindia.com and on the

The 18th AGM Notice will be sent to the shareholders in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course.

For PG Electroplast Limited

Place: Greater Noida Dated: 03.09.2020

KFin's website at https://evoting.karvy.com.

Company Secretary

Sanchay Dubey

INTERTEC TECHNOLOGIES LIMITED Regd Office: No.28, Shankar Mutt Road, Bangalore - 560 004

CIN NO. U85110KA1989PLC010456 Information Regarding 31st Annual General Meetingto be held

through VC NOTICE is hereby given that the 31st Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 30th September 2020 at 12.00 noon through Video Conference ('VC')/

Other Audio Visual Means ('OAVM') without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, MCA circular dated May 2020 read with circulars dated 8 April 2020 and 13 April 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI circular dated 12 May 2020, to transact the business as set out in the Notice convening the 31st AGM. In compliance with the said MCA circulars and SEBI circular, electronic

copies of the Notice of 31st AGM and Annual Report for FY2019-20 will be sent to all the members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants.

Members who have not registered their email addresses and mobile numbers are requested to visit the website of Company's Registrar and Share Transfer Agent KFin Technologies Private Limited ('KFin') https:// ris.kfintech.com/email registration/ for temporary registration of email id of shareholders or furnish the same along with Folio number through a duly signed request letter to the email id einward.ris@kfintech.com The Notice of 31st AGM and Annual Report for FY2019-20 will also be made available on the Company's website at http://www.intertec1.com/ investor and website of the stock Exchanges i.e. MSEI Limited at www.

msei.in and on the website of KFin at www.kfintech.com The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its ·members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of the 31st AGM.Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ('e-voting'). Detailed procedure for joining the AGM and remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of 31st AGM. Members attending the AGM through VC/ OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Place: Bangalore For Intertec Technologies Limited R.Nagarajan Company Secretary Date: 3rd September 2020

TRC Financial Services Limited

(CIN - L74899MH1994PLC216417) Registered Office: Bandra Hill View CHS, 3rd Floor, 85, Hill Road, Opp. Yoko Sizzler, Bandra (West), Mumbai - 400050. Tel: 022-26414725, Email: cs@trcfin.in, Website: www.trcfin.in

Notice of 26th Annual General Meeting

NOTICE is hereby given that the Twenty-Sixth Annual General Meeting ('AGM') of TRC Financial Services Limited ("the company") will be held on Wednesday, September 30, 2020 through video conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") at 12:00 Noon IST to transact the business as set out in the notice of the AGM which will be circulated for convening the AGM. The AGM will be held without the physical presence of the shareholders at a common venue. This is in view of the continuing COVID-19 pandemic and in compliance with the General Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"), Circular No. SEBI/HO/ CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12 May, 2020 ("said SEBI Circular") issued by the Securities and Exchange Board of India and relevant provisions of The Companies Act, 2013 and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM and attendance of the shareholders attending the AGM through VC/ OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of The Companies Act,

The Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2019-2020 ("Annual Report") is being sent only by electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants in accordance with the aforesaid MCA circular and said SEBI circular. The notice of the AGM and Annual Report will also be available on the website of the Company at www.trcfin.in and the Stock Exchange website (www.bseindia.com) The Company is pleased to provide the facility of e-voting to its shareholders, to enable

them to cast their votes on the resolution proposed to be passed at the AGM by electronic means, using remote e-voting system (e-voting from a place other than venue of the AGM) as well as e-voting during the proceeding of the AGM ("collectively referred as e-voting"). The Company has engaged the service of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for providing the e-voting facility to the shareholders. The instructions for e-voting are provided in the Notice of the AGM. Shareholders whose Email ID's are already registered with the Company/ Depository, may follow the instructions for e-voting as provided in the Notice of the AGM. Shareholders whose Email ID's are not registered with the Company/ Depository, may follow following process for procuring User Id and Password and registration of Email Id's before e-voting at the AGM. 1) For physical shareholders - please provide necessary details like Folio No., Name of Shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scan copy of PAN card), AADHAR (self-attested scan copy of AADHAR card) by email to Company at cs@trcfin.in or the Registrar and Share Transfer Agent at support@purvashare.com 2) For Demat Shareholders, please provide the Demat account details (CDSL - 16 digit beneficiary ID or NSDL - 16 digit DPID + CLID), Name client master or copy of consolidated Account Statement, PAN (self-attested scan copy of PAN card), AADHAR (self-attested scan copy of AADHAR

card) to cs@trcfin.in/ support@purvashare.com.

Dated: 3rd September 2020

For TRC Financial Services Limited By Order of the Board of Directors

Giddaiah Koteswar Whole-time Director (DIN - 07121503)

low of 73.48 against the American currency.

Aditya Birla Idea Payments Bank ceases

tions said.

last year.

. office: 1st Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi,

South Delhi-110066, CIN: L74999DL2003GOI118633, E-mail:investors@rvnl.org.

Website: www.rvnl.org, Phone No.: 011-26738299, Fax: 011-26182957

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29, 33 read with Regulation 47 of the

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing

Regulations") that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on

Friday, 11th September, 2020, through video conferencing to consider, approve and

take on record the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the

Further, pursuant to the "RVNL code of conduct for regulating and reporting trading by

Designated Persons and their immediate relatives" the Trading Window Closure

Period has commenced from 1" July, 2020 and will end 48 hours after the financial

This intimation contained in this notice is also available on website of the Company at

www.rvnl.org and website of stock exchanges where the shares of the Company are

MBL Infrastructures Ltd.

CIN L27109DL1995PLC338407

Baani Corporate One Tower, Suite No. 308

3rd Floor, Plot No. 5, Commercial Centre, Jasola, Delhi-110025

Tel: +91-11-48593300, Fax: +91-11-48593320

email: cs@mblinfra.com, Website: www.mblinfra.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29

of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,

2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on

Monday, 14th September, 2020, inter-alia, to consider, approve and take on

record the Un-audited Financial Results of the Company (both Standalone

This information is also available on the website of BSE Limited

(www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited

(www.nseindia.com) where the shares of the Company are listed and is also

RCI INDUSTRIES & TECHNOLOGIES LIMITED

Regd. Office: Unit No. 421, 4th Floor, Pearl Omaxe, Netaji Subhash Place,

Pitampura, Delhi-110034

Tel:+91 11 27372194, 27372197, Fax:+91 11 27371334 Web: www.rciind.com,

Email:compliance@rciind.com CIN: L74900DL1992PLC047055

Public Notice - 29th Annual General Meeting

This is to inform that in view of the outbreak of Covid-19 pandemic, the 29" Annual General

Meeting ("AGM") of RCI Industries and Technologies Limited ("the Company") will be held

through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM) in compliance with the

applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with

Ministry of Corporate Affairs (MCA) circular dated 5" May, 2020 read with circular dated 8"

April, 2020 & 13th April, 2020 and Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its

circular dated 12" May, 2020 (collectively referred to as Circulars)on Wednesday, 30"

September, 2020 at 10:30 A.M.to transact the business as set out in the Notice of AGM

Members may further note that in pursuance of above stated circulars and in furtherance of

Go-Green initiative of the government, the Notice of the AGM and Annual Report for the

financial year 2019-20, will be sent through electronic mode only to those members whose

email addresses are registered with the Company / Depository Participant. The members

attending the meeting through VC or OAVM shall be counted for the purpose of quorum

under section 103 of the Act. The Company is also providing e-voting and remote e-voting

The e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2019-20 of the

Company will be available on the website of the Company at www.rciind.com and also be

The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only, Detailed

instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM. Accordingly, please

note that no provision has been made to attend and participate in the AGM of the Company

in person, to ensure compliance with the directives issued by the government authorities

In case the email address is not registered with the Company / Depository Participant

Physical Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, Bigshare

Bigshare Services Private Limited, E-4/8, Block E 4, Jhandewalan

Members may also note that if your e-mail id is registered with the Company/Depository

Participant, the login credentials for remote e-voting / e-voting during the AGM will be sen

on the registered e-mail address along with the notice of AGM. However members who

have not registered their email-id can follow the procedure for registering e-mail id as

mentioned above. Members may note that the detailed procedure for remote e-voting / e-

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of

the Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and the SEBI Circular.

scanned copy of Aadhar Card) for registering email address

Services Private Limited at bssdelhi@bigshareonline.com Folio number

Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and

Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested

Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e.

Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email

Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by

For RCI Industries and Technologies Limited

Jyoti Sharma

(Company Secretary)

Extension, Jhandewalan, New Delhi-110055 alongwith letter mentioning

please follow the process of registering the same as mentioned below:

folio no. if not registered already.)

NACH if declare by company.

Place: New Delhi

financiale

Date: 03" September, 2020

address as per the process advised by DP.

voting during the AGM is also mentioned in the notice of AGM.

available on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com, in due course of time.

available on the website of the Company, viz, www.mblinfra.com.

and Consolidated) for the quarter ended 30th June, 2020.

of the Banking Regulation Act, 1949 with effect from July 28, 2020....," one of the notifica-

Aditya Birla Idea Payments

RBI said Westpac Banking Corporation has also ceased to be a banking company.

In another notification, the

cial told reporters.

ing to a statement. Western Coalfields Limited (A subsidiary of Coal India Ltd.)

All tenders issued by WCL for procurement of goods, Works and Services are available on website of Coal India Ltd www.coalindia.in/ respective subsidiary Company, CIL e-procurement portal http://coalindiatenders.nic.in and Central Public Procurement Portal https://eprocure.gov.in. In addition, procurement is also done through GeM Portal https://gem.gov.in. Tendering Authority: G.M.(MM) HOD. WCL, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur (M.S.) - 440001

COMMON WINDOW

GENERAL NOTICE

Tenders of WCL/Areas are available at : (i) www.coalindiatenders. nic.in (ii) www.eprocure.gov.in Bids can be submitted online through www.coalindiatenders.nic.in only. Corrigendum / Adendum if any are published in www.coalindiatenders.nic.in only. Tendering Authority General Manager (CMC), WCL(HQ), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur

For details contact: http://westerncoal.in, http://eprocure.gov.in or coalindiatenders.nic.in 'Give a missed call on toll free number 18002003004 to get our apps"

WEBFIL LIMITED

Regd. Office: "YULE HOUSE", 8, Dr. Rajendra Prasad Sarani, Kolkata – 700001 Phone: 033 2242 8210/8550/1988, 2248 4671, 2243 1555 FAX: +91 33 2242 1335

> E-mail: webfil@webfilindia.com; website: www.webfilindia.com, CIN: L36900WB1979PLC032046

NOTICE OF BOARD MEETING Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 & 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, 211" meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 14" of September, 2020, at 4.00 p.m. through video Conferencing, will, inter alia, consider and take on record the Audited Financial Results of the Company for the guarter and Year ended 31" March, 2020 and also consider recommendation of Final Dividend for the Financial Year 2019-2020, if any. This intimation is also available on the website of the Company www.webfilindia.com and on the website of

The Calcutta Stock Exchange Limited www.cse-india.com. In this regard, Trading Window for Designated Employees etc. shall remain close up to 16" September, 2020.

Place Kolkata Date: 04.09.2020

For Webfil Limited Sneha Kewat Company Secretary

APOLLO TRICOAT TUBES LIMITED Regd. Office: 37 Hargobind Enclave Vikas Marg, Delhi-110092 Corporate Identity Number: L74900DL1983PLC014972 Tel.: 91-11-22373437. Fax: 91-11-22373537 Website: www.apollotricoat.com • email: info@apollotricoat.com

NOTICE TO THE MEMBERS FOR THE 38™ ANNUAL GENERAL MEETING In view of the outbreak of COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read in conjunction with MCA Circular Nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively, permitted holding of Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ['SEBI (LODR) Regulations"] read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and the above MCA Circulars, it has been decided to convene the 38th AGM of the Company on Tuesday, September 29, 2020 at 2.00 P.M. through VC/OAVM facility, without the physical presence of the Members at a

In compliance with the relevant SEBI and MCA Circulars, the Notice of the 38" AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year that ended on March 31, 2020, along with login details for joining the 38" AGM through VC / OAVM facility including e-voting will be sent only by e-mail to all those Members, whose e-mail addresses are already registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP"). Members can join and participate in the 38th AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice. Members participating through VC / OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Notice of the 38" AGM and the Annual Report will also be made available on Company's website (www.apollotricoat.com), Stock Exchange's website (www.bseindia.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (www.evotingindia.com). The Company is providing remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) facility to all its Members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of the 38" AGM. Detailed instructions for remote e-voting are provided in the said Notice.

Members who have not registered their e-mail address with the Company or RTA, can register their e-mail address for receipt of Notice of 38" AGM, Annual Report and login details for joining the 35th AGM through VC / OAVM facility including e-voting by sending a request to M/s Bigshare Services Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent at investor@bioshareonline.com or to the Company at info@apollotricoat.com, providing their name, folio number/DPID & Client ID, client master or copy of consolidated account statement (in the case of demat holding), copy of share certificate - front and back (in the case of physical holdings), self- attested scanned copy of the PAN card and self-attested scanned copy of Aadhar Card in support for registering e-mail address. Any person, who acquires shares and becomes Member of the Company after the date of

electronic dispatch of Notice of 38" AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 22, 2020, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of 38" AGM or sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. If you have any gueries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual

available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular.

Date: Sep 3, 2020

Place: Delhi

Apollo Tricoat Tubes Limited

Surbhi Arora Company Secretary

For and on behalf of

YAMINI INVESTMENTS COMPANY LIMITED CIN No.: L67120MH1983PLC029133 Regd. Office: E-210, Crystal Plaza, Opp. Infinity Mall, New link Road

Andheri West Mumbai-400053 Email ID: yamininvestments@gmail.com; Webssite: www.yamininvestments.com

			tion in a second trans	
Particulars	Quarter ended June 30,2020 Unaudited	Quarter ended June 30,2019 Unaudited	Year ended Mar 31,2020 Audited	
Total Income from operations (net)	7.85	18.05	448.65	
Net Profit for the period before Tax & Exceptional Item	(1.47)	7.53	25.18	
Net Profit for the period before Tax & after Exceptional Item	(1.47)	7.53	25.18	
Net Profit for the period after Tax & Exceptional Item	(1.47)	5.58	18.63	
Other Comprehensive income for the period		201301		
Total Comprehensive Income for the period [Comparising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1.47)	5.58	18.11	
Equity Share Capital	5,257.26	5,257.26	5,257.26	
Reserves (excluding Revaluation Reserve)				
Earnings Per Share (before/after extraordinary items) (of Rs.1 /- each)				
(a) Basic: (b) Diluted:		0.001 0.001	0.004 0.004	

The above Unaudited financial results were reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their Meeting held on 2nd Sep, 2020.

The Statutory auditors of the Company have carried out a "Auditor's report" of the above results as per Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) The Company has adopted Indian Accounting standards (Ind AS) with effect from 01st April,

The Company operates in single business segment i. e. Investments therefore. Segment wise details are not applicable to the company as the Company has no segment.

The World Health Organisation (WHO) declared the novel Coronavirus (COVID-19) outbreak a global pandemic on March 11, 2020. Consequent to this, Government of India had declared lockdown on March 23, 2020 and therefore, the Company suspended its business operations. COVID-19 has impacted the normal business operations of the Company by way of interruption in production, supply chain disruption, closure of production facilities etc. during the lock-down period. However, business operations resumed from June 01, 2020 after obtaining necessary permissions from the appropriate government authorities. We have also taken necessary precautions to ensure the health, safety and wellbeing of all our employees as well as put in place SOPs and guidelines as per state government directives to prevent the spread of Covid-I 9. The Company has made detailed assessment of its liquidity position for FY 2021 and the recoverability and carrying value of its assets comprising property, plant and equipment, intangible assets, right of use assets, investments, inventory, and trade receivables. Based on current indicators of future economic conditions, the Company expects to recover the carrying amount of these assets. The situation is changing rapidly giving rise to inherent uncertainty around the extent and timing of the potential future impact of the COVID-19 which may be different from that estimated as at the date of approval of these standalone financial results.

Place : Mumbai

New Delhi

Whole Time Director

Place: Bangalore

The Company will continue to closely monitor any material changes arising of future economic conditions and impact on its business.

2017 and accordingly, the above results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 prescribed under Section 133 of the This Result and Limited Review Report is available on company Website www.yaminiinvestments.com as well as BSE website www.bseindia.com

For YAMINI INVESTMENTS COMPANY LTD Vandana Agarwal

SHALIMAR PAINTS LIMITED Regd Office: Stainless Centre, 04th Floor, Plot No.50, Sector-32, Gurugram, Haryana-122001 Website: www.shalimarpaints.com, e-mail:askus@shalimarpaints.com NOTICE TO THE MEMBERS OF THE 118TH ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that 118th Annual General Meeting ('AGM") of Shalimar Paint Limited ("the Company") will be convened on Tuesday, 29th September, 2020 at 12.30 P.M. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OVAM") facility in

2015 and circular dated 12th May 2020 issued by the SEBI ("SEBI Circular"), without physical presence of the Members at a common venue. The Notice of the 118th AGM and the Annual Report for the year 2019-20 including therein the Audited Financial Statements for financial year ended 31st March, 2020, are being sent only by email to the Members whose email addresses are registered with the Company or with their respective depository participants in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circular. The members can join and participate in the 118th AGM through VC/OVAM facility only. The instructions for joining the 118th AGM and the manner of participation in the remote e-voting or e-voting during the 118th AGM are mentioned in the Notice of 118th AGM. Attendance of the Members of the Company, participating in the 118th AGM through VC / OAVM Facility will be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 118th AGM will also be available on the website of the Company at www.shalimarpaints.com, on the

compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed

thereunder, circular dated 5th May, 2020 read with circulars dated 8th April, 2020 and 13th

April, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA

Circulars"), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations

website of BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. The Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company and who wish to receive the Notice of the 118th AGM and the Annual Report for the year 2019-20 and/or login details for joining the 118th AGM through VC/OAVM facility including e-voting can now register their e-mail addresses with the Company. For this purpose they can send scanned copy of signed request letter mentioning folio number, complete address and the email address to be registered along with self-attested copy of the PAN Card and any document supporting the registered address of the Member, by email to the Company at askus@shalimarpaints.com Members holding shares in demat form are requested to register their email addresses with their Depository Participant(s) only.

For Shalimar Paints Limited

(Gautam) Company Secretary

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2020

	(Rs. in Lakh:			
Particulars	Exceptation with the state of t	Quarter ended June 30,2019		
	Unaudited	Unaudited	Audite	
Total Income from operations (net)	7.85	18.05	448.	
Net Profit for the period before Tax & Exceptional Item	(1.47)	7.53	25.	
Net Profit for the period before Tax & after Exceptional Item	(1.47)	7.53	25.	
Net Profit for the period after Tax & Exceptional Item	(1.47)	5.58	18.	
Other Comprehensive income for the period	*	911303	30311	
Total Comprehensive Income for the period [Comparising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1.47)	5.58	18.	
Equity Share Capital	5,257.26	5,257.26	5,257.	
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	8			
Earnings Per Share (before/after extraordinary items) (of Rs.1 /- each)				

Place: Gurugram

Date: September 03, 2020

Dated: 02.09.2020

Phone No.: 011 - 25885942, Email: leadingleashing@gmail.com Website: www.llflltd.com 36वीं वार्षिक साधारण बैठक के संबंध में जानकारी

कंपनी की 36वीं वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम") ई-एजीएम बुलाने के लिए सूचना में वर्णित व्यापार का लेन-देन करने के लिए कंपनीज अधिनियम. 203 और उसके अंतरात बने नियमों के सभी लागु प्रावधानों के अनुपालन और निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 ('एकत्र रूप से 'संबंधित परिपत्र) के साथ पठित सेबी (सूचीबद्ध देयताओं व प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनपालन में मंगलवार, 29 सितंबर, 2019 को सबह 10.00 बजे वीडियो कांफ्रेसिंग ("वीसी") / (अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों ('ओएवीएम') द्वारा आयोजित की जाएगी। सदस्य वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम मे भाग लेने मे सक्षम होंगें।

संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 209–2020 के लिए स्टैंडलोन वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, अंकेक्षण रिपोर्ट और उसके लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों सहित कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी / कंपनी के रजिस्टार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट पूर्वा शेरजिस्टी (इंडिया) प्रा. लि.(यहां के बाद 'आरटीए'' के रूप में संदर्भित) के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.llflltd.com, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट और मेटोपालिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर भी उपलब्ध है।

ए) भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य जिनके ई—मेल पते कंपनी के साथ रजिस्टर / अपडेट नहीं हैं. http://purvashare.com/email-and-phone-updation/ पर विलक कर कंपनी के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट पूर्वा शेरजिस्ट्री (इंडिया) प्रा. लि.(यहां के बाद 'आरटीए''

के रूप में संदर्भित) के साथ उन्हें रजिस्टर / अपडेट करा लें।

ई—मेल रजिस्टर / अपडेट करा लें।

ए) सदस्यों को इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम ("ई-वोटिंग") द्वारा एजीएम की सूचना में वर्णित व्यापार पर अपने वीट डालने का अवसर दिया जाएगा।

ई-मेल पंजीकत नहीं किए के लिए एजीएम के दौरान ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग करने का तरीका एजीएम की सचना में दिया जाएगा।

होगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट नहीं डाले हैं। सदस्यों से एजीएम की सुचना में वर्णित सभी नोटों और विशेष रूप से, एजीएम से जुड़ने के

सावधानी से पढ़ने का अनुरोध है। किसी पूछताछ के लिए, कंपनी से 011-25885942/ईमेल आईडी leadingleasing@gmail.com या कंपनी के रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स पूर्वा शेरजिस्टरी (इंडिया) प्रा. लि. उनका कार्यालय 9, शिव शक्ति इंडस्ट्रियल एस्टेट, जे.आर.

> लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड हस्ता./- नाम : अमी जिनंन शाह डीआईएन : 06792048 पद : पूर्णकालिक निदेशक पता : 8 – गिरिराज दूसरी मंजिल, कोटची

वादी वी.पी रोड गिरगांव मुंबई 400004 महाराष्ट्र

दिनांक: 03, सितंबर, 2020 स्थान: दिल्ली

> पंजीकृत कार्यालय : इकाई सं. 421, चौथी मंजिल, पर्ल ओमेक्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

दूरभाष : +91 1127372194, 27372197, फैक्स : +91 11 27371334 वेब : www.rciind.com ई-मेल : compllance@rciind.com सीआईएन : L74900DL1992PLC047055

एतद्वारा सुचित किया जाता है कि कोडि-19 महामारी के कारण उचित समय पर भेजी जाने वाली एजीएम की सचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन के लिए कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय ('एमसीए') के परिपत्र दिनांक ह अप्रैल, 2020 एवं 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, २०१३ के प्रयोज्य प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 (सामृहिक रूप से परिपत्र सन्दर्भित) के अनुपालन में आरसीआई इण्डस्ट्रीज एण्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/ अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से बुधवार, 30 सितम्बर, 2020

सदस्य पुनः ध्यान दें कि उपर्युक्त परिपत्रों तथा पुनः सरकार के गो–ग्रीन इनशिएटिव के अनुसार एजीएम क सुचना तथा वित्त वर्ष2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों के पास भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी∕डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत हैं। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की परिगणना अधिनियम सी धारा 103 के तहत कोरम पुरा करने के उदुदेश्य से की जायेगी। कम्पनी पूर्व की भाँति अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग की

वित्त वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सूचना की ई-प्रति कम्पनी की वेबसाइर www.rciind.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उचित समय प

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित एवं भाग ले सकेंगे। एजीएम में शामिल होने की के विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में उपलब्ध होंगे। तदनुसार कृपया ध्यान दें कि कोविड-19 महामार्ह कि परिप्रेक्ष्य में सरकारी प्राधिकरणों द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के

एजीएम में व्यक्ति रूप से उपस्थित तथा भाग लेने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकत नहीं हैं तो कपया पंजीकरण की निम्नलिख प्रिक्रिया का अनुपालन करें :

िभौतिक धारिता किम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर अन्तरण एजेंट, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास bssdelhi@bigshareonline.com पर निवेदन भेजें। ई-मेल पते के पंजीकरण के लिए फोलियो नम्बर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन्ड प्रति (आगे तथा पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति)। कृपया मृल कैंसिल चेक के साथ अपना बैंक विवरण हमारे आरटीए (अर्थात बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ई-4/8, ब्लॉक ई 4, झण्डेवालान एक्सटेंशन, झण्डेवालान, नई दिल्ली-11005 के पास यदि पहले से पंजीकृत नहीं है तो फोलियो नम्बर का उल्लेख करते हए) भेजें।

डीमैट धारिता कपया अपने डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से सम्पर्क करें और डीपी के निर्देश के अनुसार अपना ई–मेल पता पंजीकत करायें। कृपया यदि कम्पनी द्वारा घोषित किये जाने पर एनएसीएच द्वारा लाभांश के भुगतान हेत् अपना बैंक विवरण डीपी के साथ अपडेट करायें।

रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण एजीएम की सचना के साथ पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे जायेंगे। हालाँकि जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं वे उपर्युक्त प्रक्रिया के दवारा ई–मेल का पंजीकरण करा सकते हैं। सदस्य ध्यान दें कि रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेत विस्तत प्रक्रिया भी एजीएम की सचना में उल्लिखित है।

उपर्युक्त सूचना कम्पनी के सभी सदस्यों की सूचना तथा लाभ के लिए निर्गत की जा रही है और यह एमसीए

ज्योति शर्मा स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 03 सितम्बर, 2020

(कम्पनी सचिव

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एंव पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अतंर्गत एचडीएफसी बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 22.10.2019 जारी कर मै. इन्टरनेशनल ट्रेनिचंग पी लि. (ऋणधारक) के गारन्टरों/मार्टगैजरों जैसे सश्री परमजीत सिंह भसीन, श्री समित भसीन तथा श्री गनीत भसीन को उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60

लाख उन्सठ हजार एक सौ सत्तर तथा पैसे चौहत्तर मात्र) के साथ उस पर आगे का ब्याज तथा अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। गारन्टर/मार्टगैजर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिल्ली में 2 सितम्बर, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के

ऋणधारक/गारन्टरों/मार्टगैजरों का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति क व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 01.10.2019 को रु. 21,28,59,170.74 (रुपये इक्कीस करोड़ अट्टाईस लाख उन्सट हजार एक सौ सत्तर तथा पैसे चौहत्तर मात्र) के साथ उस पर आगे का ब्याज तथा अन्य चार्जेज तथा खर्चे आदि के लिये एचडीएफसी बैंक लि. के चार्ज के अधीन होगा।

आवासीय सम्पत्ति सं. जे-11/75ए, रजौरी गार्डन, दिल्ली, माप 180 वर्ग यार्ड्स 2.9.2020 को 10.00 बजे पूर्वा. रं का पूर्वी आधा भाग

टिप्पणीः उपरोक्त सूचना को अधिनियम के नियम 6, 8 तथा 9 के अंतर्गत 30 दिनों की बिक्री सूचना भी मानी जाये। स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी तिथि: 2.9.2020 एचडीएफसी बैंक लि.

पंजी. कार्यालय: 37. हरगोविन्द एन्क्लेव. विकास मार्ग. नई दिल्ली-110092 कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L74899DL1986PLC023443 टेली: +91-11-22373437, फैक्स: +91-11-22373537

वेबसाईटः www.aplapollo.com ई-मेलः investors@aplapollo.com

सदस्यों के लिए 35वीं वार्षिक साधारण सभा की सचना कोविड-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') ने अपने सर्क्युलर सं. 20/2020 तिथि 5 मई, 2020 के साथ पठित एमसीए सर्क्यूलर सं. 14/2020 तथा 17/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020, क्रमशः के माध्यम से किसी सामहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थित

के बिना विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'') अन्य ऑडियो विजअल माध्यमों (''ओएवीएम'') सविधा द्वारा वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') के आयोजन की अनुमति दी है। कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों, सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 [''सेबी (एलओडीआर) विनियमनों''] के साथ पठित भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्क्युलर नं. सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी 1/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 79 तिथि 12 मई, 2020 (''सेबी सर्क्युलर'') के प्रावधानों तथा उपरोक्त एमसीए सर्क्युलर्स के अनुपालन में कम्पनी की 35वीं एजीएम किसी सामृहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. में आयोजित करने का फैसला किया गया है। संबंधित सेबी तथा एमसीए सर्क्यूलर्स के अनुपालन में 35वीं एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2020 को

समाप्त वित्त वर्ष के लिए कम्पनी के वार्षिक रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग सहित वीसी/ ओएवीएम सुविधा द्वारा 35वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरणों ईमेल द्वारा केवल ऐसे सदस्यों को ही भेजे जाएंगे जिनके र्डमेल पते कम्पनी अथवा रजिस्टार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स (''डीपी'') के पास पूर्व से ही पंजीकृत हैं। सदस्यगण केवल वीसी/ ओएवीएम सुविधा द्वारा ही 35वीं एजीएम में शामिल तथा भाग लें सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के लिए निर्देश सुचना में दी गई है। वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी। 35वीं एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट (www.aplapollo.com) स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईटों (www.bseindia.com) तथा www.nseindia.com) तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'' (www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

यह कम्पनी 35वीं एजीएम की सचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर मतदान करने के लिये अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) तथा ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) की सुविधा उपलब्ध करा रही है रिमोट ई-वोटिंग के विस्तृत निर्देश उक्त सुचना में दी गई है।

कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति तथा ईमेल पते के पंजीकरण के समर्थन में आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति उपलब्ध कराते हुए rta@abhipra.com पर मै. अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड, रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट (आरटीए) के पास अथवा investors@aplapollo.com पर कम्पनी के पास अनुरोध भेजकर ई-वोटिंग सहित वीसी/ ओएवीएम सुविधा द्वारा 35वीं एजीएम में शामिल होने के लिये लॉगिन विवरणों के साथ 35वीं एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति के लिये अपना ई मेल

कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 को शेयरधारित करते हैं, वे 35वीं एजीएम की सुचना में वर्णित निर्देशों का पालन कर अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

यदि एजीएम में उपस्थित होने एवं ई-वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न हो तो आप सहायता खंड के अंतर्गत www.evoting.india.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQ's") तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल लिखें अथवा श्री नितिन कुण्डेर (022-23058738) उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सदस्यों के सुचनार्थ तथा लाभार्थ तथा एमसीए सर्क्युलर्स एवं सेबी सर्क्युलर के अनुपालन में जारी की जा रही है।

कृते एवं के लिये एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड

तिथि: 03 सितम्बर, 2020 दीपक सीएस स्थानः दिल्ली कम्पनी सचिव

एकएस क्रेडिट्स लिमिटेड पंजी. कार्यालयः 6081, II रा तल, कमरा सं. 201, गली बताशन, खारी बावली, दिल्ली-110006

CIN: L65921DL1991PLC043544 30वीं वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग तथा एफवाई 2019-20 के लिये पस्तक बंद

सभा (एजीएम) सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020, 17/2020, 20/2020 तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सर्क्युलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी 1/सीआईआर/पी/2020/79 (यहाँ के बाद सामृहिक रूप से सर्क्युलर्स वर्णित) के अनुपालन में किसी सामृहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना कम्पनी को वीसी के द्वारा एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी गई है, विडियो कॉन्फ्रेसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित की जायेगी।

2. सर्क्युलर्स के अनुपालन में एजीएम की सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की इलेक्ट्रॉनिक प्रति ऐसे सभी सदस्यों को भेजी गई जाएंगी जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.akscredits.in तथा स्टॉक एक्सचैंज की

वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। 3. कट–ऑफ तिथि (21 सित. 2020) को भौतिक या डीमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्य सीडीएसएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा एजीएम सूचना में वर्णित व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित कर सकते हैं। सदस्यों को सचित किया जाता है कि

एजीएम की सुचना में वर्णित व्यवसायों को रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली से निष्पादित किया जायेगा।

ii. रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार 25.9.2020 को (9.00 बजे पूर्वा.) में शुरु होगी।

ऑफ तिथि 21.9.2020 है।

v. 27 सित. 2020 को 5.00 बजे अप. के बाद रिमोट ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जायेगी। vi. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य

बनते हैं तथा 21.9.2020 की कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे www.evoting@cdsl.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि वे ई-वोटिंग के लिये सीडीएसएल में पहले से पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिये अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। vii. सदस्यगण ध्यान रखें कि: क) 27 सित. 2020 को 5.00 बजे अप. के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट

ई-वोटिंग पद्धत्ति निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमित नहीं दी जायेगी; ख) एजीएम के दौरान भी मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी तथा वीसी सुविधा द्वारा एजीएम में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा प्रस्तावों पर मतदान नहीं किये हों. वे एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली से मतदान कर सकते हैं। ग) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं, किन्तु फिर से मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे; तथा घ) केवल ऐसे व्यक्ति जिनका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग सविधा प्राप्त करने के लिये

viii. डिमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति, भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों तथा ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, के लिये रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सचना में दी गई है। ये विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। सदस्यों से आग्रह है कि www.akscredits.in देखकर विवरण प्राप्त करें।

x. जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हों, उनसे आग्रह है कि संबंधित डिपॉजिटरी

पुनः सेबी (एलओडीआर) विनियमनों के विनियमन 42 के अनुपालन में कम्पनी की 30वीं वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से पस्तक बंद रहने की अवधि 22 सितम्बर, 2020 से 28 सितम्बर, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक निर्धारित की गई है।

एकेएस क्रेडिटस लिमिटेड के लिये

(पूर्व में लॉरेल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड) पंजी. कार्या: गांव भंडोसी, तहसील सोहना, गडगांव-122102, हरियाणा E-mail: laurelorganicslimited@gmail.com Web: www.laurel.co.in CIN: L24239HR1993PLC032120, Tel: 011-47063600, Fax: 011-47063601/02

कीमिया बायोसांइसेज लिमिटेड

कोविड—19 महामारी के चलते, निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र सं. दिनांक 5 मई, 2020, परिपत्र सं. दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और परिपत्र दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के तहत वीडियो कॉफ्रेंसिंग या अनय ऑडियो-विज्अल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। इन परिपत्रों ओर कंपनीज अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों और सेबी (सूचीबदध देयताओं व प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों की आने वाली 27वीं एजीएम वी / ओएवीएम द्वारा 28 सितंबर, 2020 को दौंपहर 3.30 बजे आयोजित की जा रही है।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की 27वीं सूचना उन सभी सदस्यों को इलैक्ट्रानिक रूप से भेजी गई है जिनके ई-मेल पते पहले ही कंपनी / डिपोजिटरी के साथ पंजीकत हैं। कंपनी ने पूर्व अभ्यास के लिए उसी प्रकार अपने सभी सदस्यों को ई—वोटिंग और रिमोट ई—वोटिंग की सविधा भी प्रदान की है।

यदि कंपनी / डिपोजिटरी के साथ ई-मेल आईडी पहले से ही पंजीकृत हैं, वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की 27वीं सचना और ई—वोटिंग के लिए लॉग—इन विवरण अपने पंजीकृत ई-मेल पतों पर भेजी जाएगी। यदि केंपनी / डिपोजिटरी के साथ ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, कृपया वित्तीय वर्ष 2019—2020 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और ई—वोटिंग के लिए लॉग—इन विवरण प्राप्त करने के लिए अपने ई—मेल पंजीकृत करने के एि नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। ई-मेल पते रजिस्टर करने के लिए फोलियों नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे

स्कैनड प्रति) प्रदान कर कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट, beetairta@gmail.com पर मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड या कंपनी के ई-मेल आईडी laurelorganicslimited@gmail.com पर अन्रोध भेजें। गैर-भौतिक अपने डिपोजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा दी गई प्रक्रिया अनुसार

व पीछे) की स्कैनड की प्रति, पैन (स्व सत्यापित स्कैनड प्रति) आधार कार्ड (स्व सत्यापित

अपने ई-मेल पंजीकत करें

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए वार्षिक रिपोर्ट सहित 27वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.laurel.co.in, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वालों की गिनती कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंर्तगत कोरम को पुरा करने के लिए की जाएगी। कीमिया बायोसांइसेज लिमिटेड के लिए

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 02.09.2020

हस्ता./-समीर गोयल (प्रबंध निदेशक) (DIN: 00161786)

अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 37, हरगोबिन्द एन्कलेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L74900DL1983PLC014972

दुरभाष : +91-11-22373437, फैक्स : 91-11-22373537 वेबसाइट : www:apollotricoat.com • ई-मेल : info@apollotricoat.com 38वीं वार्षिक आम बैठक हेतु सदस्यों को सूचना

कोविड–19 महामारी के प्रसार को देखते हुए, कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय (''एमसीए'') ने एमसीए परिपत्र सं. 14/2020 तथा 17/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित अपने परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 के माध्यम से किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी है। कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों, भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 (''सेबी परिपत्र'') के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 [''सेबी (एलओडीआर) विनियम''] तथा उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से कम्पनी की 38वीं एजीएम मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को आयोजित की जानी निश्चित की गयी है।

सम्बद्ध सेबी तथा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में 38वीं एजीएम में ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम शामिल होने के लिए से 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट तथा 38वीं एजीएम की सुचना केवल उन सभी सदस्यों के पास भेजी जा रही है जिनके ई–मेल पते पहले कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट अथवा उनके सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदारों (''डीपी'') के साथ पंजीकृत हैं। वीसी/एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों की परिगणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के लिए की जायेगी। 38वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट (www.apollotricoat.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध होगी। कम्पनी 38वीं एजीएम में की सचना में निर्धारित सभी संकल्पों पर अपना मतदान करने के लिए अपने सभी सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) तथा ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई-वोटिंग हेत विस्तृत निर्देश कथित सुचना में प्रावधानित हैं। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते कम्पनी अथवा आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं कराये हैं वे अपने ई-मेल पंजीकरण हेत 38वीं एजीएम की सचना, वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 38वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेतु मैसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेन्ट के पास investor@bigshareonline.com पर अथवा कम्पनी के पास info@apollotricoat.com पर अपना नाम, फोलियो नम्बर/डीपीआईडी तथा क्लाइंट आईडी, क्लाइन्ट मास्टर कॉपी या समेकित खाता विवरण की प्रति (डीमैट धारिता की स्थिति में), शेयर प्रमाणपत्र की प्रति - आगे तथा पीछे (भौतिक धारिता के मामले में). पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति. आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति भेजकर अपने ई-मेल पते पंजीकत करा सकते हैं।

कोई व्यक्ति जो शेयर अर्जित करता है और 38वीं एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजे जाने की तिथि के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 तक शेयर धारण करता है वह 38वीं एजीएम की सुचना में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कर-के अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड

यदि ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम में शामिल होने तथा ई-वोटिंग से सम्बन्धित कोई पूछताछ या समस्या है तो आप www.evotingindia.com पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (''एफएक्यू'') तथा ई-वोटिंग मैनुअल का सन्दर्भ लें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल लिखें या सम्पर्क करें : श्री नितिन कुंदर (022- 23058738) अथवा महबूब लखानी (022-23058543) अथवा श्री राकेश दलवी (022-23058542).

उपर्युक्त सूचना कम्पनी के सभी सदस्यों की सूचना तथा लाभ के लिए निर्गत की जा रही है और एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र के अनुपालन में है।

> कृते एवं हिते अपोलो ट्राइकॉट ट्यूब्स लिमिटेड

सुरभि अरोडा तिथि : 3 सितम्बर, 2020 कम्पनी सचिव स्थान : दिल्ली



अरावली सिक्योरिटीज एण्ड फाइनेंस लिमिटेड सीआईएन: L67120HR1980PLCO39125 पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट सं. 136, चौथा तल, राइडर हाउस, सेक्टर 44, गुरुग्राम-122003, हरियाणा ई-मेलः info@aravalisecurities.com

40वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर तथा रिमोट ई-वोटिंग सूचना की सूचना एतद्वारा सुचना दी जाती है कि एजीएम की सुचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन के लिए अरावर्ल सिक्योरिटीज एण्ड फाइनेंस लिमिटेड के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 के 11.00 बजे पूर्वा. आयोजित की जायेगी। कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन तथा अनुपालनी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट कार्यालय मन्त्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित सामान्य परिपत्र 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 एवं सेबी परिपत्र सं SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 (सामृहिक रूप से 'प्रयोज्य परिपत्र' सन्दर्भित) ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने सहित विभिन्न रियायल प्रदान की हैं। प्रयोज्य परिपत्रों तथा भौतिक प्रतियाँ भेजने में होने वाली कठिनाइयों के अनसार वित्त वर् 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट तथा 40वीं एजीएम की सचना उन सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते कम्पनी/ डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकत हैं। 31 मार्च. 2020 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक आम बैठक की सचना कम्पनी की वेबसाइट

वेबसाइटः www.aravalisecurities.com

www.aravalisecurities.com पर सदस्यों द्वारा डाउनलोड करने हेत उपलब्ध है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 तथा सूचीबद्धता अनुबन्ध के उपबन्ध 16 के अनुसार एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों की शेयर अन्तरण परितका बृहस्पतिवार, 24 सितम्बर 2020 से बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 (दोनों दिवस शामिल) तक वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकं को रिकार्ड पर लेने के उददेश्य से बन्द रहेंगी।

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं सचीबद्धता अनबन्ध के उपबन्ध 35बी के अनुपालन में एतद्वारा सचना दी जाती है कि कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने हेत् नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एलएसडीएल) के माध्यम से उनके पोर्टल www.evoting.nsdl.com के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग सविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 27 सितम्बर, 2020 (9.00 बर्ज प्रात) प्रारम्भ होगी और मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 (5.00 बजे अप.) समाप्त होगी। कथित तिथि एवं समय के उपरान्त ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जायेगी। इस अवधि के दौरान कम्पनी के सदस्य जो कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2020 तक भौतिक या अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करते हैं वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो शेयर अर्जित करत है और इस सचना के निर्गमन के पश्चात कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2020 तक कम्पनी के शेयर धारण करता है, उसे कट-ऑफ तिथि के पश्चात मेल के माध्यम से यह सूचना उपलब्ध कराई जायेगी और ऐसे सदस्य evoting@nsdl.co.in या आरटीए स्काइलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड भी प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह मतदान के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर का प्रयोग कर सकता है। इसके पश्चात एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जायेगा। जो सदस्य वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) वे माध्यम से 30 सितम्बर, 2020 को बैठक में भाग ले रहे हैं वे एजीएम की सूचना दिनांक 25 अगस्त 2020 को सूचना में निर्दिष्ट प्रकार्य पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैठक के दौरान एनएसडीएल की इलेक्टॉनिक वोटिंग प्रणाली (ई-वोटिंग) के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। किन्त, केवल वे ही सदस्य/शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना मतदान नहीं किया है और उन्हें अन्यथा ऐसा करने से वंचित नहीं किया गया है वे एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प मतदान के पात्र होंगे। यदि उपर्युक्त प्रारूप के किसी मतदान से सम्बन्धित कोई पूछताछ या परेशानी है तो आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड के तहत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेशचन्स (''एफएक्यू'') तथा सदस्यों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा एनएसडीएल से टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग हेत् विस्तृत सूचना प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रावधानित है। रिमोट ई-वोटिंग से सम्बन्धित कोई पूछताछ/ शिकायत सुश्री रुचि श्रीवास्तव, कम्पनी सचिव, प्लॉट नं. 136, चौथा तल, राइडर हाउस, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122003, हरियाणा, दुरभाषः +91-124-4556677 फैक्स : +91-124-4556677, ई-मेलः comoanysecretary@aravalisecurities.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानसार कृते अरावली सिक्योरिटीज एण्ड फाइनेंस लिमिटे

स्थानः गुरुग्राम रुचि श्रीवास्तव तिथि: 25.08.2020 कम्पनी सचि

पंजीकृत कार्यालय : स्टेनलेस सेंटर, चतुर्थ तल, प्लॉट नंबर 50, सेक्टर-32, गुरूग्राम, (हरियाणा)-122001 वेबसाइट : www.shalimarpaints.com, ई-मेल आईडी : askus@shalimarpaints.com

तददारा सचना दी जाती है कि शालीमार पेंटस लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 118वीं वार्षिक सामान्य वेठक ("एजीएम"), मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को अप. 12.30 बजे, कम्पनी अधिनियम, 2013 के लाग प्रावधान रवं तदधीन विरचित नियमों, कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर दिनांकित 05 मई, 2020 के साथ पठित सर्कुलर दिनांकित 08 अप्रैल, 2020 तथा सर्कुलर दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 (सामृहिक रूप से "एमसीए सर्कुलर्स" कहें गए हैं), सेबी (सचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 तथा सेबी द्वारा जारी सर्कलर देनांकित 12 मई ("सेबी सर्कुलर") के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेन्स ("वीसी")/अन्य ऑडियो विज्अल मीन्स "ओएवीएम") सुविद्या के माध्यम से, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, आयोजित की

के पास पंजीबद्ध है। सदस्यगण 118वीं एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से जुड सकते हैं तथा भाग ले सकते हैं। 118वीं एजीएम से जुड़ने हेत् अनुदेश और 118वीं एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग अथवा ई—वोटिंग में भाग लेने की विधि का वर्णन 118वीं एजीएम की सूचना में किया गया है। वीसी /ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 118वीं एजीएम में भाग ले रहे कम्पनी के सदस्यों की उपस्थिति कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ दर्ज की जाएगी। 118वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की देबसाइट www.shalimarpaints.com पर तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और नेशनल स्टॉक एक्सबॅज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। भौतिक रूप में शेयरों के धारक जिन सदस्यों ने अपना ई—मेल पता कम्पनी में पंजीकत नहीं करवाया है तथा 118वीं एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2019-20 हेत् वार्षिक रिपोर्ट तथा / अथवा वीसी / ओएवीएम स्विद्या के माध्यम से 118वीं एजीएम से जुड़ने जिसमें ई-वोटिंग शामिल है, के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के इच्छुक हैं. अपना ई—मेल पता कम्पनी में पंजीबद्ध करवा सकते हैं। इस प्रयोजन हेत् वे हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति, फोलियो नंबर, पूरा पता और पंजीकरण हेतु ई—मेल पता वर्णित करते हुए, पैन कार्ड की स्व—सत्यापित प्रति

askus@shalimarpaints.com पर भेज सकते हैं। डीमेंट रूप में शेयरों के धारक सदस्यों से अपना ई-मेल पता उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपॅट(पार्टिसिपॅटस) मात्र के पास पंजीकत करवाने का अनुरोध है। वास्ते शालीमार पेंटस लिमिटेड

स्थान : गुरुग्राम तिथि : 03 सितम्बर, 2020

इन्डो गल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड CIN: L74900DL1981PLC011425

पंजीकृत कार्यालयः 4237/11, II रा तल, नरेन्द्र भवन 1, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सर्क्युलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफर्ड

ई-मेलः rjheadoffice@gmail.com वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग तथा पस्तक बंद होने की तिथि की सचना एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 37वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी साधारण सर्क्युलर नं. 20/2020, 14/2020, 17/2020 तथा

1/सीआईआर/पी/2020/79 (यहाँ के बाद सामृहिक रूप से सर्क्युलर्स वर्णित) के अनुपालन में किसी सामृहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना जिसकी अनुमति कम्पनी को दी गई है, विडियो कॉन्फ्रेसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित की जायेगी। अतएव कम्पनी का एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है जिसमें एजीएम की सुचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

सर्क्यलर्स के अनुपालन में एजीएम की सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की इलेक्टॉनिक प्रति ऐसे सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट WWW.INDOGULFIND.IN पर उपलब्ध है। ईमेल द्वारा एजीएम की सूचना का प्रेषण 3.9.2020 को पूरा क

कट-ऑफ तिथि 28.8.2020 को भौतिक या डीमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्य सीडीएसएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा एजीएम सचना में वर्णित व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित कर सकते हैं। सदस्यों को सचित किया जाता है कि

. एजीएम की सुचना में वर्णित व्यवसायों को रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली से निष्पादित

ii. रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार 25.9.2020 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरु होगी। iii. रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 27.9.2020 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी।

iv. रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा पात्रता सनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि 21.9.2020 है। 27.9.2020 को 5.00 बजे अप. के बाद रिमोट ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जायेगी।

vi. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा 21.9.2020 की कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे www.evotingindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि वे ई-वोटिंग के लिये सीडीएसएल में पहले से पंजीकृत है तो मतदान करने के लिये अपने वर्तमान युजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

vii. सदस्यगण ध्यान रखें किः क) 27.9.2020 को 5.00 बजे अप. के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमित नहीं दी जायेगी; ख) एजीएम के दौरान भी मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी तथा वीसी सुविधा द्वारा एजीएम में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा प्रस्तावों पर मतदान नहीं किये हों, वे एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली रं मतदान कर सकते हैं। ग) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों. वे एजीएम में शामिल हं सकते हैं, किन्तु फिर से मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे; तथा घ) केवल ऐसे व्यक्ति जिनका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे।

viii. डिमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति. भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों तथा ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, के लिये रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। ये विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। सदस्यों से आग्रह है कि www.indogulfind.in देखकर विवरण प्राप्त करें। ix. जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हों, उनसे आग्रह है कि संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स वे पास ई-मेल पता दर्ज कराएं तथा भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्य beetalrta@gmail.com प 37वीं एजीएम की सुचना, रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों, वीसी द्वारा एजीएम में भागीदारी के निर्देशों के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिये कम्पनी के रजिस्टार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट बीएल फाइनांसियल एंड

कम्प्यटर सर्विसेस प्रा.लि. के पास अपना ईमेल पता अद्यतन कराएें। वह प्रक्रिया जिसमें सदस्य अपना लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, सचना में वर्णित है। xi. यदि एजीएम में उपस्थित होने तथा ई-वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग से संबंधित आपका कोई प्रश्न या समस्या हो तो आप सहायता खंड के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें या नितिन कुण्डेर (022-23058738) या श्री मेहबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश डाल्वी (022-23058542)

xii. डलेक्टॉनिक माध्यमों से मतदान संबंधी सभी समस्याऐं श्री राकेश डाल्वी, प्रबंधक (सीडीएसएल), सेन्टल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्यूचुरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुम्बई-400013 को संबोधित करें अथवा helpedesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजे या 022-23058542/43 पर कॉल करें।

बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर सं

स्थानः नर्ड दिल्ली तिथि: 03.09.2020 इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड तनुश्री पुरोहित

Form A PUBLIC ANNOUNCEMENT Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF EXCLUSIFE TECHNOSOFT PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS Name of corporate debtor **EXCLUSIFE TECHNOSOFT PRIVATE** LIMITED 06-12-12 Date of incorporation of corporate debtor Authority under which corporate debtor is incorporated / registered U74110DL2012PTC245779 Corporate Identity No. / Limited Liability dentification No. of corporate debtor Address of the registered office and Registered office: B-1/307 Sunrise principal office (if any) of corporate debtor Apartments Sector 13. Robini, North West Delhi 110085

Date of order: 01/09/2020 Insolvency commencement date in respect of corporate debtor 28/02/2021 (i.e 180 days from initiation of Estimated date of closure of insolvency

resolution process Name and registration number of the Mr. Ashok Kriplani insolvency professional acting as interim Registration No.: IBBI/IPA-003/IPresolution professional N00009/2016-17/10071

Address and e-mail of the interim resolution | 10/18, First floor, Old Rajinder Nagar, New Delhi-110060 professional, as registered with the Board Email: ashok.kriplani1956@gmail.com

10 Address and e-mail to be used for 17/13, Ground floor, Old Rajinder Nagar, correspondence with the interim resolution New Delhi-110060 professional Email: exclusifecirp@gmail.com

11 Last date for submission of claims 15/09/2020 (14 days from the date of receipt of the Hon'ble NCLT order as on 01/09/2020, the date of appointment of

ascertained by the interim resolution professional 13 Names of Insolvency Professionals identified N.A. to act as Authorised Representative of

12 Classes of creditors, if any, under clause (b) N.A.

of sub-section (6A) of section 21,

creditors in a class (Three names for each

14 (a) Relevant Forms and (a) Web link: (b) Details of authorized representatives are https://ibbi.gov.in/home/downloads (b) N.A.

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench, has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Exclusife Technosoft Private Limited on 01/09/2020. The creditors of Exclusife Technosoft Private Limited, are hereby called upon to submit their

claims with proof on or before 15/09/2020 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only, if any. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Notice is hereby further given that banks/ Financial Institutions of Exclusife Technosoft Private Limited are requested not to debit any further amount from the bank accounts of Exclusife Technosoft Private Limited without prior authorization of Interim resolution professional.

Name and Signature of Interim Resolution Professional

Date and Place: 03/09/2020 and New Delhi

पंजी.कार्यांलय : 611, छठी मंजिल, प्रगति टॉवर 26 राजेंद्र प्लेस, मेट्रो स्टेशन के सामने, दिल्ली—110008 CIN: L65910DL1983PLC016712

अप्रैल, 2020 और परिपन्न सं. 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020 व अन्य लाग् परिपन्नों और सेबी वीसी / ओएवीएम सविधा भाग लेने वाले सदस्यों की गिनती कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम को पूरा करने के उददेश्य से की जाएगी।

s. ई—मेल पते रजिस्टर करने / अपडेट करने का तरीका :

बी) गैर भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिनके ई-मेल पते उनके डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ रजिस्टर / अपडेट नहीं हैं, अपने संबंधित डिपोजिटरी से संपर्क कर अपने

ı. ई—वोटिंग द्वारा वोट डालने का तरीका :

बी) गैर – भौतिक मोड, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा और जिन सदस्यों ने अपने ती) एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा एजीएम में भाग लेने वाले उन सदस्यों के लिए उपलब्ध

निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग द्वारा या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने का तरीका

बोरीचा मार्ग, लॉअर परेल (ईस्ट) मुंबई महाराष्ट्र 400011 संपर्क विवरण : टेली 5 022-23012518 / 23016761 से संपर्क कर सकते हैं। निदेशक मंडल के आदेशानसार

आरसीआई इण्डस्ट्रीज एण्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

29वीं वार्षिक आम बैठक की सार्वजनिक सचना

को 10.30 बजे प्रातः आयोजित की जायेगी।

सदस्य यह भी ध्यान दें कि यदि आपका ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत है त

परिपत्र(त्रों) तथा सेबी परिपत्र के अनुपालन में है। कृते आरसीआई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

अपोलो पाइप्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 37. हरगोविन्द एन्क्लेव, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

Corporate Identity Number: L65999DL1985PLC022723 Tel.: +91-11-22373437 / 0120-2973411, Fax No: +91-11-22373537 Website: www.apollopipes.com Email: compliance@apollopipes.com सदस्यों के लिए 34वीं वार्षिक साधारण सभा की सुचना कोविड-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') ने अपने सर्क्युलर सं 20/2020 तिथि 5 मई, 2020 के साथ पठित एमसीए सर्क्यलर सं. 14/2020 तथा 17/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल. 2020. क्रमशः के माध्यम से किसी सामहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'') अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') सुविधा द्वारा

वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') के आयोजन की अनुमति दी है। कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों, सेबी (सुचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 [''सेबी (एलओडीआर) विनियमनों''] के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्क्यलर नं. सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी 1/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 79 तिथि 12 मई. 2020 ''सेबी सर्क्युलर'') के प्रावधानों तथा उपरोक्त एमसीए सर्क्युलर्स के अनुपालन में कम्पनी की 34वीं एजीएम किसी सामृहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा मंगलवार 29 सितम्बर, 2020 को 4.00 बजे अप. में आयोजित करने का फैसला किया गया है। संबंधित सेबी तथा एमसीए सर्क्यलर्स के अनुपालन में 34वीं एजीएम की सचना तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कम्पनी के वार्षिक रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग सहित वीसी/ ओएवीएम सविधा द्वारा 34वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरणों ईमेल द्वारा केवल ऐसे सदस्यों को ही भेजे जाएंगे जिनके ईमेल पते कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट (''आरटीए'') अथवा उनके संबंधित

की वेबसाईट (www.apollopipes.com) स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईटीं (www.bseindia.com) तथा www.nseindia.com) तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल" (www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह कम्पनी 34वीं एजीएम की सचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर मतदान करने के लिये अपने सभी सदस्यों

को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) तथा ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) की सुविधा उपलब्ध करा रही

है। रिमोट ई–वोटिंग के विस्तृत निर्देश उक्त सूचना में दी गई है। जिन सदस्यों ने कम्पनी अथवा आरटीए के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे अपना नाम, फोलियो नम्बर/ डीपीआईडी एवं क्लाइन्ट आईडी, क्लाइन्ट मास्टर अथवा समेकित खाता के विवरण के प्रति डीमैट धारिता के मामले में), शेयर प्रमाण पत्र- फ्रान्ट एवं बैंक की प्रति (भौतिक धारिता के मामले में) पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति तथा ईमेल पते के पंजीकरण के समर्थन में आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति उपलब्ध कराते हुए beetalrta@gmail.com पर मै. बीटल फाइनांसियल एंड कंप्यूटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट (आरटीए) के पास अथवा compliance@apollopipes.com पर कम्पनी के पास अनुरोध भेजकर ई-वोटिंग सहित वीसी/

सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति के लिये अपना ई मेल पता पंजीकत करा सकते हैं। यदि को कोई व्यक्ति 34वीं एजीएम की सचना के इलेक्टॉनिक प्रेषण की तिथि के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 को शेयरधारित करते हैं, वे 34वीं एजीएम की सुचना में वर्णित निर्देशों का पालन कर अथवा evoting@cdslindia.com

प्रश्न हो तो आप सहायता खंड के अंतर्गत www.evoting.india.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions' (FAQ's) तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल लिखें अथवा श्री नितिन कुण्डेर (022-23058738) या श्री मेहबुब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश डाल्वी (022-23058542) से सम्पर्क करें। उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सदस्यों के सुचनार्थ तथा लाभार्थ तथा एमसीए सर्क्युलर्स एवं सेबी सर्क्युलर ■ HDFC BANK 5वाँ तल, अंसल क्लासिक टावर, प्लॉट नं. 1, जे-ब्लॉक, कम्युनिटी सेन्टर,

सर्या कंटिनेन्टल के सामने. रजौरी गार्डन. नई दिल्ली-110027 कब्जा सचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

(प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार) दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 01.10.2019 को रु. 21,28,59,170.74 (रुपये इक्कीस करोड़ अट्ठाईस

नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

अचल सम्पत्ति का विवरण अचल सम्पत्ति का विवरण

APLAPOLLO STEEL PIPES

जिन सदस्यों ने कम्पनी अथवा आरटीए के पास अपना ई-मेल पता पंजीकत नहीं कराये हैं. वे अपना नाम, फोलियो नम्बर/ डीपीआईडी एवं क्लाइन्ट आईडी, क्लाइन्ट मास्टर अथवा समेकित खाता के विवरण के प्रति डीमैट धारिता के मामले में), शेयर प्रमाण पत्र- फ्रान्ट एवं बैंक की प्रति (भौतिक धारिता के मामले में) पैन

यदि कोई व्यक्ति 35वीं एजीएम की सचना के इलेक्टॉनिक प्रेषण की तिथि के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा

या श्री मेहबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश डाल्वी (022-23058542) से सम्पर्क करें।

होने की तिथि की सुचना एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि एकेएस क्रेडिट्स लिमिटेड (''कम्पनी'') की 30वीं वार्षिक साधारण

अतएव कम्पनी का एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है जिसमें एजीएम की सुचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

iii. रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 27.9.2020 को (5.00 बजे अप.) में बंद होगी। iv. रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान की पात्रता सनिश्चित करने के लिये कट-

पार्टिसिपैन्टस के पास ई-मेल पता दर्ज कराएं तथा भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से आग्रह है कि 30वें एजीएम की सूचना, रिमोट ई-वोटिंग के लिये निर्देशों तथा वीसी के द्वारा एजीएम में भागीदारी के लिये निर्देशों के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिये info@masserv.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट, एमएएस सर्विसेस लिमिटेड के पास अपना ईमेल पता अद्यतन कराएें।

> विशेक खेमका निदेशक

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 03.09.2020

डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस (''डीपी'') के पास पर्व से ही पंजीकृत हैं। सदस्यगण केवल वीसी/ ओएवीएम सविधा द्वारा ही 34वीं एजीएम में शामिल तथा भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के लिए निर्देश सचना में दी गई है। वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा भाग लेने वाले सदस्यों को गणना अधिनियम की धारा 103 वे अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी। 34वीं एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी

के अनुपालन में जारी की जा रही है।

तिथि: 03 सितम्बर, 2020 स्थानः नोएडा

ओएवीएम सविधा द्वारा 34वीं एजीएम में शामिल होने के लिये लॉगिन विवरणों के साथ 34वीं एजीएम की

पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि एजीएम में उपस्थित होने एवं ई-वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा अथवा

कम्पनी सचिव

www.readwhere.com

कृते एवं के लिये अपोलो पाइप्स लिमिटेड हस्ता./ अंकित शर्मा

Notice is hereby also given that officers, managers and all employees of Exclusife Technosoft Private Limited to report to the Interim resolution professional.

Ashok Kriplani

सीआईएन : L24222HR1902PLC065611

सदस्यों को 118वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

रमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर के अनुसार, एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2019–20 हेत् वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण दिया गया है, उन सदस्यों को क्रंबल ई—मेल द्वारा भेजी जा रही है, जिनका ई—मेल पता कम्पनी अथवा उनके संबंधित ढिपॉजिटरी पार्टिसिपॅटस

तथा सदस्य के पंजीकृत पते के समर्थन में किसी दस्तावेज के साथ ई–मेल द्वारा कम्पनी को